

APIS INDIA LIMITED

18/32, East Patel Nagar, New Delhi 110 008 India **T** +91 11 4320 6650 **F** +91 11 2571 3631 **E** mail@apisindia.com **W** apisindia.com

AIL/CS/2023-24/338

November 10, 2023

To The Manager, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code: 506166

Subject: Submission of Newspaper Cutting of Publication of unaudited Financial Results for the quarter & half year ended September 30, 2023

Dear Sir,

Please find enclosed newspaper cuttings of Extracts of unaudited Financial Results for the quarter & half year ended September 30, 2023, as published in Financial Express and Jansatta.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For APIS India Limited

Amit Anand (Managing Director) DIN: 00951321

Investor Email id: mail@apisindia.com

Encl: a/a

FINANCIAL EXPRESS



APIS INDIA LIMITED

CIN: L51900DL1983PLC164048 Registered office: 18/32, East Patel Nagar, New Delhi-110008 Tel: 011-4320 6650, Fax: 011-2571 3631

E-mail: mail@apisindia.com, Website: www.apisindia.com EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED ON SEPTEMBER 30, 2023

(Rs. In Lakhs except per share data)

	The state of the s	9	Quarter Ended		Half year	r Ended	Year Ended
S. No	Particulars	30.09.2023 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations (Net)	7,964.59	7,898.36	9,859.11	15,862.95	16,690.00	33,300.05
2	Net profit for the period (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	572.92	617.18	585.71	1,190.10	523.82	1,313.33
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	572.92	617.18	585.71	1,190.10	523.82	1,313.33
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	406.08	437.40	433.16	843,48	371.27	736.04
5	Total comprehensive income [comprising profit/loss for the period after tax and other comprehensive income (after tax)]	508.91	892.42	739.99	1,401.33	917.03	1,849.52
6	Paid up equity share capital (Face value of Re. 10/- each)	551.01	551.01	551.01	551.01	551.01	551.01
7	Other Equity (Reserve Excluding revaluation reserve)	5.5	105	65	7	55	11,002.83
8	Earnings per share (face value of Rupee 10/- each) (not annualised) Basic and Diluted earnings per share (in Rs.)	9.24	16.20	13.43	25.43	16.64	33.57

Date: November 09, 2023

Place: New Delhi

No.

- The above unaudited Consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 09, 2023.
- 2 The Statutory Auditors of the Company have carried out the Limited Review of unaudited (Standalone & Consolidated) financial results for the guarter & half year ended September 30, 2023, in accordance Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the guarter & half year ended September 30, 2023, filled with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requireemnts) Regulations, 2015. The full format of unaudited (Standalone & Consolidated) financial results of the Company for the quarter & half year ended September 30, 2023 are available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and on the website of Company at www.apisindia.com.

The key figures of the Company on standalone basis are as follows:

		Quarter ended		Half Year	Year Ended	
Particulars	30.09.2023 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
Total income from operations (Net)	7,964.59	7,898.36	9,859.11	15,862.95	16,690.00	33,366.01
Profit before tax	572.93	617.38	585.71	1,190.31	523.86	1,375.64
Profit after tax	402.09	437.60	433.16	839.69	371.31	798.35
Other comprehensive income			-	9	Q+	24.18
Total comprehensive income	402.09	437.60	433.16	839.69	371.31	822.53

5 The figures for the previous guarter and year ended have been regrouped / rearranged, wherever necessary, to confirm to the current period's classification.

For APIS India Limited

Amit Ananad

Managing Director DIN:00951321

Quarter

ended

30 September

2023

TEGA INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Godrej Waterside, Tower-II, Office No. 807, 8th Floor, Block DP-5, Salt Lake Sector V, Bidhannagar, Kolkata - 700 091, West Bengal Tel: +91 33 4093 9000; Email: compliance.officer@tegaindustries.com; Website: www.tegaindustries.com

Extract of the Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and half year ended September 30, 2023.

Standalone

Quarter

ended

30 September

2022

Year

ended

31 March

2023

1,818.56 7,400.97

332.73 1.496.01

332.73 1,496.01

245.46 1,138.20

241.30 1.134.49

663.54

17.17

17.08

9,646.57

662.93

3.70

3.69

Quarter

ended

2023

30 September 30 June

633.67

633.67

473.61

367.77

664.52

7.13

7.11

Extracts of Financial Results for the Quarter and Six Months ended September 30, 2023

3.808.09 2.762.07

Quarter

ended

30 June

2023

319.32

319.32

244.27

242.38

664.52

3.68

3.67

a) The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the websites of the Stock

2,055.93 1,526.40

419.29

419.29

331.18

333.73

664.52

4.98

4.97



Regd. Office: Regd. Office: 214, Empire House, Dr. D. N. Road, Ent. A. K. Nayak Marg, Fort, Mumbai - 400001 Tel Nos: 22071501-06 Fax: 22071514 Email: investorshelpdesk@weizmann.co.in

Visit us at: www.karmaenergy.co Extract of the Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30.09.23 (Rs. in Lac except EPS data) Standalone

	6	Quarter	Ended	Half Year Ended		
	Particulars	30.09.23 Unaudited	30.09.22 Unaudited	30.09.23 Unaudited	30.09.22 Unaudited	
1	Total Income from Operations	631.25	606.91	988.13	1,029.90	
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	341.55	176.13	377.73	213.60	
3	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	256.75	217.47	285.54	303.39	
4	Total Comprehensive Income for the period					
	[Comprising Profits / (Loss) for the period (after Tax)					
	and Other Comprehensive Income (after Tax)]	262.87	176.48	285.40	292.20	
5	Equity Share Capital	1,156.99	1,156.99	1,156.99	1,156.99	
6	Earnings per Share of Rs. 10/- each					
	[(for Continuing and Dis-continued Operations					
	(not annualised)]					
	Basic & Diluted	2.22	1.88	2.47	2.62	

- filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for Quarter and Half Year Ended 30.09.23 is available on the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and
- www.nseindia.com and also on the Company's website at www.karmaenergy.co The above results were reviewed by the Audit Committee at its meeting on 08.11.23 and approved by the
- The Company is primarily operating in the business of Generation of Power from Renewable Sources. Hence, there is only one business segment as per Ind-AS 108 - Operating Segments.
- As required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the review by the Statutory Auditors has been completed for the Quarter and Half Year Ended 30.09.23 and the Report has been forwarded to the stock exchanges. The Report does not contain any

Previous period's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary.

Board of Directors of the Company at its meeting held on 09.11.23

Place: Mumbai Dated: 09.11.2023

"IMPORTANT

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in any manner whatsoever.

(All amount in ₹ millions, unless otherwise stated)

Quarter

ended

30 September

2022

Year ended 31

March

2023

2,360.99

2,360.99

1.840.30

1,858.70

663.54

27.76

27.62

Mehul Mohanka

9,826.38

2.829.35 12.346.56

472.23

472.23

353.31

242.62

662.93

5.33

5.31

Managing Director and Group CEO

Consolidated

Quarter

ended

2023

266.61

266.61

213.91

105.15

664.52

3.22

3.21

Sd/-Chetan D. Mehra Vice Chairman & Managing Director DIN - 00022021

For KARMA ENERGY LIMITED

Modern Engineering and Projects Limited (Formerly Known as Modern Converters Limited)

E-mail: cs@mep.ltd; Website: www.mepl.ltd; Telephone No.: 022-6666007 CIN: L01132MH1946PLC381640

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th September, 2023 Rs. in Lakhs (Except earnings per share data)

	2 KEN 104 (000) S (100)	0	uarter Ende	s. in Lakns ed			Year Ended	
Sr. No.	Particulars	September 30, 2023	2022	30, 2022	September 30, 2023	30, 2022	2023	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Income :	8 3	**		S	D) 19		
	a) Revenue from operations	1,660.85	1,429.03	9.01	3,089.88		6,779.89	
	b) Other Income	4.26	234.02	182	238.28	2.85	163.45	
	Total Revenue	1,665.11	1,663.05	9.01	3,328.16	159.16	6,943.34	
2	Expenses :	100000	50000		y Minus		Ess. us	
	a) Operating Costs	1,197.39	1,214.88		2,412.27		6,197.68	
	b) Employee benefits expense	132.47	120.07	27.69	252.54	77.00	402.24	
	c) Finance Costs	36.68	15.23	7.93	51.91	15.86	31.71	
	d) Depreciation & Amortization expense	91.87	53.47	27.74	145.34	54.03	137.73	
	e) Other expenses	79.86	87.69	48.77	167.56	106.63	455.19	
	Total Expenses	1,538.27	1,491.35	112.12	3,029.62	253.51	7,224.56	
3	Profit/(Loss) Before Tax (1-/+2)	126.84	171.70	(103.11)	298.55	(94.35)	(281.22)	
4	Exceptional items Income / (Expenses) :							
3 4 5	Profit/(Loss) Before Tax (3-/+4)	126.84	171.70	(103.11)	298.55	(94.35)	(281.22)	
6	Tax Expense	54.85	43.30	(5.38)	98.15	(5.55)	(16.34)	
	A.Current Tax	39.85	43.21		83.06	3.87	3.87	
	B.Deferred Tax	15.00	0.09	(5.38)	15.09	(9.42)	(20.21)	
7	Profit/(Loss) for the period (5-6)	72.00	128.40	(97.73)	200.40	(88.80)	(264.88)	
8	Other Comprehensive Income: a) Items that will not be reclassified to profit or loss	***************************************			8		104	
	b) Tax impact relating to items that will not be reclassified to profit or loss			1 194			194	
9	Total Comprehensive Income for the							
	period (7+8)	72.00	128.40	(97.73)	200.40	(88.80)	(264.88)	
10	Paid-up Equity Share Capital			87 97		80. 3	8 66	
	(Face Value of Rs.10 per share)	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	
11	Earnings per Share (EPS) a) Basic & Diluted EPS Before Exceptional							
	items (Rs)	2.33	4.16	(0.32)	6.49	(0.29)	(8.57)	
Note	 b) Basic & Diluted EPS After Exceptional items (Rs) 	2.33	4.16	(0.32)	6.49	(0.29)	(8.57)	

The above financial result is filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), 2015. The detailed Notes of the above financial result are available on the website of Stock Exchange viz. www.bseindia.com the same is also available on the Company website viz. www.mep.ltd.

On the behalf of Board of Directors For Modern Engineering and Projects Limited

Place: Mumbai Date: 8th day of November, 2023 Jashandeep Singh DIN: 02357390 Managing Director



Trejhara Solutions Limited

Regd. Office: Unit no. 601, Sigma IT Park, Plot no. R-203, R-204 T.T.C. Industrial Estate, Rabale, Navi Mumbai - 400701. Phone: +91-22-4040-8080 Fax: +91-22-4040-8081, Email: investor@treihara.com: Website: www.treihara.com

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30[™] SEPTEMBER, 2023

Sr	100 A 100 A		uarter Ended	TRANSPORTER TOWNS TO	Half Year	Year Ended	
No.	Particulars	30-Sep-23	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	602.82	402.97	644.06	1005.79	1,099.29	2,243.37
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)*	625.32	462.42	503.66	1,087.74	960.48	(7,529.68)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)"	501.57	462.42	503.66	963.99	960.48	(7,529.68)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items) ^a	386.41	393.67	388.58	780.08	732.88	(29,912.87)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	383.53	377.60	374.54	761.13	738.85	(30,811.83)
6	Equity Share Capital	1,181.63	1,181.63	1,181.63	1,181.63	1,181.63	1,181.63
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			0.5990.00.00			18,646.92
8	Earnings per equity share (for Continuing and Discontinuing Operations)						
	- Basic (₹)	3.27	3.33	3.29	6.60	6.20	(253.15)
	- Diluted (₹)	3.27	3.33	3.29	6.60	6.20	(253.15)

Quarter Ended Half Year Ended Year Ended No. **Particulars** 30-Sep-23 30-Jun-23 30-Sep-22 30-Sep-23 30-Sep-22 31-Mar-23 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 228.33 216.65 444.98 472.82 Turnover 225.64 913.05 2 Profit/(Loss) before tax 442.32 376.55 (427.13)811.72 (7,832.03)(869.44)Profit/(Loss) after tax (997.12)337.57 276.61 (659.56)(8,151.36) a) The above is an extract of the detailed format of Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2023 filed with

the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarter ended financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and Company's website viz. www.trejhara.com. Figures for previous period / year have been regrouped / reclassified, wherever necessary to make them comparable with those of the current quarter.

"Net Profit before tax and after tax includes discontinued operations

(₹ in Crore)

Place : Navi Mumbai Date: 09/11/2023

Amit Sheth Chairman & Director DIN-00122623

For Trejhara Solutions Limited

Adfactors 426

Date: 08.11.2023

नालको 🙉 NALCO

A NAVRATNA COMPANY

Exchange(s) and the Company's website, (www.tegaindustries.com),

Particulars

Total Income from Operations

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,

Exceptional and/or Extraordinary items)

Exceptional and/or Extraordinary items)

Exceptional and/or Extraordinary items)

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as

and discontinued operations)

Extraordinary items)

Income (after tax)

Equity Share Capital

(of ₹5/- each) (not annualised):

Earnings Per Share (before extraordinary items)

shown in the Audited Balance Sheet of the

Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing

Basic (not annualised for quarters) (in ₹)

Diluted (not annualised for quarters) (in ₹)

Total Comprehensive Income for the period

6. Equity Share Capital

previous year

Place: Kolkata

Date: November 09, 2023

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after

tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]

National Aluminium Company Limited (A Government of India Enterprise) NALCO Bhawan, P/1, Nayapalli, Bhubaneswar-751 013, Odisha, India CIN: L27203OR1981GOI000920

Aluminium Smelter Bauxite Mining Alumina Refinery Renewable Energy Power Generation

NALCO: EMPOWERING PROGRESS, NURTURING EXCELLENCE

Quarter Ended Six Months Ended Year Ended Quarter Ended Six Months Ended Year Ended Particulars 3 4 1 30/06/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2022 31/03/2023 30/09/2023 30/06/2023 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2022 31/03/2023 30/09/2023 Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 6,221.78 14,254.86 Total Income from Operations 3,043.42 3,178.36 7,286.81 3,043.42 3,178.36 6,221.78 7,286.81 14,254.86 3,491.66 3,491.66 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or 274.97 274.97 1,023.93 1,954.99 470.91 245.88 745.88 1,023.93 1,954.99 470.91 245.88 745.88 Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional 274.97 470.91 and/or Extraordinary items) 245.88 745.88 1.023.93 1,954.99 256.06 455.28 201.19 711.34 958.51 1,845.16 Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 206.26 349.39 170.12 555.65 748.76 1,544.49 187.35 333.76 125.43 521,11 1,434.66 Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and other Comprehensive 196.80 357.11 1,602.14 177.89 194.35 553.91 771.31 341.48 149.66 519.37 705.89 1,492.31 918.32 918.32 918.32 918.32 918.32 918.32 918.32 918.32 918.32 918.32 918.32 918.32 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the 12,320.13 12,208.05 Audited Balance Sheet of the previous year

 Basic 1.12 1.90 0.93 3.03 4.08 8.41 1.02 1.82 0.68 2.84 3.72 7.81 1.12 1.90 1.82 Diluted 0.93 3.03 4.08 8.41 1.02 0.68 2.84 3.72 7.81 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com.and www.bseindia.com; and Company's website, www.nalcoindia.com.

- (1) The financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meeting held on 9th November, 2023. Limited review as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the Joint Statutory Auditors of the Company.
- (2) Out of the four joint venture companies whose financials have been consolidated, financials of two joint venture companies M/s, Utkarsha Aluminium Dhatu Nigam Limited have been consolidated on the basis of financials as certified by the Management, the effects whereof are not material. Further, consolidated financials for the quarter ended 30th September, 2023 does not include the financials of M/s. Khanij Bidesh India Limited, the joint venture company, due to nonavailability of its financials, which is not material
- (3) The Board of Directors at its meeting held on 09.11.2023 has approved interim dividend of ₹1/- per equity share (20% on face value of ₹5/- each) amounting to ₹183.66 crore for the FY 2023-24. (4) Based on the recommendation of the Board, the shareholders of the Company has approved final dividend of ₹1/- per equity share (20% on face value of ₹5/- each) amounting to ₹183.66 crore for the FY 2022-23 at the 42nd Annual General Meeting held on
- 21st September, 2023 and the same was paid on 19 October, 2023. The total dividend pay out for the FY 2022-23 is ₹4.50/- per equity share (interim dividend of ₹3.50/- per share and final dividend of ₹1/- per share) amounting to ₹826.48 crore.
- (5) Figures pertaining to previous periods have been regrouped, recasted and rearranged, wherever necessary.

Place: Bhubaneswar Dated: 9" November, 2023

(CA Sridhar Patra) Chairman-cum-Managing Director



Amroha, Uttar Pradesh.

7. Opening of Financial bid

New Delhi

Online e-tenders are invited for Supply, erection and commissioning of most modern sugar plant with Expansion of existing Sugar Mill of 2500 TCD capacity to new 4900 TCD sugar mill on 22 hours basis including civil construction of foundation & Factory Buildings on EPC basis for production of Sulphurless Refined Sugar including operation and maintenance of the lant for three crushing season and two off-season (crop days less than 45 days will not be considered as complete crushing season) after successful commissioning at The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Gajraula, Distt.

SI.No	Particulars	
1.	Name of The Department	U.P. Co-operative Sugar Factories Federation Ltd. 9A, Rana Pratap Marg, Lucknow-226001
2.	Procedure for obtaining and submission of bid documents	Tender form is to be downloaded from e-tender portal http://etender.up.nic.in and website www.upsugarfed.org
3.	Bid EMD	Rs. 4,40,00,000/- (Rupees Four Crores Forty lakhs) through RTGS/NEFT by any Nationalised Bank/Scheduled Bank in favour of UP Co-operative sugar factories federation ltd. payable at Lucknow. Name of Benificary:- U.P.Coop. Sugar Factories Federation Ltd. Bank Account No.:- 53012823858 IFS Code No:- SB1N0060284 Name of Bank Branch:- VidhanSabha Marg, Lucknow.
4.	e-Bid Submission/ Download Start Date	10-11-2023from 18:55 hrs
5.	Last date & Time of submission of bids	12-12-2023 UPTO 18:55 hrs
6.	Opening of Technical bid	13-12-2023 AT 11:00 am

The details of submission of e-bids along with eligibility, date & time, opening of Technical/Financial bids, EMD, experience and other terms & conditions will be available on e-tender portal http://etender.up.nic.in and on Federation's website www.upsugarfed.org. The tender fee is Rs. 35000/-(Rupees Thirty Five thousand) + GST only Non refundable and required EMD will be deposited before opening of Technical bid. The detailed terms and conditions are given in e-tender document. E-Tender without E.M.D & e-bid document fee shall be rejected. Bidder who have already submitted E.M.D. for this tender need not to deposit again, however, e-bid document fee for this tender should be deposited by all participating bidders. The Federation reserves the right to cancel bids or the e-bidding process without assigning any reason thereof. The decision of Federation will be final & binding upon (RAMAKANT PANDEY) MANAGING DIRECTOR

20-12-2023 AT 11:00 am

financialexp.epap.in





SANGAL PAPERS LIMITED (CIN- L21015UP1980PLC005138)

REGD. OFFICE: VILL BHAINSA, 22KM STONE, MEERUT-MAWANA ROAD, MAWANA, UP-250 401

PHONE: 01233-271515, 271137, e-mail: sangalinvestors1980@gmail.com, website: www.sangalpapers.com EXTRACT OF THE UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR

Particulars	Quarter ended (30.09.2023) Unaudited		Year to date ended (30.09.2023) Unaudited	
Total Income from operations (Net)	4673.93	5591.56	9645.68	22812.37
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-67.61	87.25	59.13	479.83
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	-67.61	87.25	59.13	479.83
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	45.37	55.35	45.80	338.59
Total Comprehensive Income for the period	-50.54	55.27	42.15	334.46
Equity Share Capital	130.73	130.73	130.73	130.73
Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-		15	3733.95
Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (of Rs. 10/-each)				
Basic:	-3.47	4.23	3.50	25.90
Diluted:	-3.47	4.23	3.50	25.90

1. The above is an extract of unaudited financial statements for the Quarter ended 30th September, 2023 were reviewed by the Audit committee and therefore approved by the Board of Directors of the company in the Meeting held on Thursday 9th November, 2023. As per Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, The Company opted to publish the Standalone Unaudited Financial Result of the Company, it will also be available on the Company's website www.sangalpapers.com as well as on the stock exchange's www.bseindia.com.

2. With the effect from 1" April, 2017 the Company has adopted IND AS prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued there under accordingly, the financial result of the company for the quarter ended 30° September, 2023 have been prepared in accordance with IND AS and Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation 2015. For and on behalf of Sangal Papers Limited,

Himanshu Sangal (Managing Director) Place: Mawana (DIN-00091324) Dated: 09.11.2023

> AJANTA SOYA LIMITED CIN L15494RJ1992PLC016617

Regd. Office & Works: SP-916, Phase - III, Industrial Area, Bhiwadi - 301019, Rajasthan, India Tel.: 911-6176727, 911-6128880

Corp. Office: 12th Floor, Bigjo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi-110034 Phone: 011-42515151: Fax: 011-42515100 WEBSITE- www.ajantasoya.com, Email - cs@ajantasoya.com

Extract of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30 September, 2023

						(Rs. in Lakhs	except EPS		
		Standalone							
SI No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2023 Un-Audited	Quarter ended 30.06.2023 Un-Audited	Quarter ended 30.09.2022 Un-Audited	Half year ended 30.09.2023 Un-Audited	Half year ended 30.09.2022 Un-Audited	Year ended 31.03.2023 Audited		
1.	Total Income from operations*	27,399.50	25,842.32	27,636.05	53,241.82	63,811.34	1,23,922.28		
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	124.13	(201.45)	(1,131.64)	(77.32)	376.64	382.37		
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	124.13	(201.45)	(1,131.64)	(77.32)	376.64	382.37		
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	117.81	(193.30)	(814.21)	(75.49)	283.13	223.55		
5.	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	112.56	(193.30)	(845.90)	(80.74)	251.44	260.69		
6.	Equity Share Capital	1,609.66	1,609.66	1,609.66	1,609.66	1,609.66	1,609.66		
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	10,970.37 (as on 31.03.2023)	10,970.37 (as on 31.03.2023)	10,709.68 (as on 31.03.2022)	10,970.37 (as on 31.03.2023)	10,709.68 (as on 31.03.2022)	10,970.37 (as on 31.03.2023)		
8.	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic:	0.15	(0.24)	(1.01)	(0.09)	0.35	0.28		
Note	Diluted:	0.15	(0.24)	(1.01)	(0.09)	0.35	0.28		

Note:

*Total Income from operations consists of "Revenue from Operations and Other Income".

This Financial Results of the Company have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Un-audited Financial Results for the Quarter and Half year ended 30th September, 2023 are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com and on Company's website www.ajantasoya.com.

The above results were reviewed by the Audit committee, and thereafter approved by the Board of Directors in their meetings held on 9th November, 2023.

Previous year periods figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.

On behalf of the Board For Ajanta Soya Limited Sushil Goyal

Managing Director Place: New Delhi Date: 9th November, 2023 (DIN: 00125275)



एपीस इंडिया लिमिटेड

CIN: L51900DL1983PLC164048 पंजीकृत कार्यालय: 18/32, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 फोन: 011-4320 6650, फैक्स: 011-2571 3631 ईमेल: mail@apisindia.com , वेबसाइट: www.apisindia.com

	30 सितम्बर, 2023 को समाप	त तिमाही और ए	माही के लिए कं	सोलिडेटेड अन्य	भंकेक्षित वित्तीय	परिणामों का सार	P.	
	455	100	50 SSS		(3	लाखों में ईपीएर	न को छोड़कर)	
_	NO.		समाप्त तिमाहीं		समाप्त	छमाही	समाप्त वर्ष	
क्र. सं	विवरण	30.09.2023 (अनअंकेक्षित)	30.06.2023 (अनअंकेक्षित)	30.09.2022 (अनअंकेक्षित)	30.09.2023 (अनअंकेक्षित)	30.09.2022 (अनअंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेक्षित)	
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	7,964.59	7,898.36	9,859.11	15,862.95	16,690.00	33,300.05	
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	572.92	617.18	585.71	1,190.10	523.82	1,313.33	
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद	572.92	617.18	585.71	1,190.10	523.82	1,313.33	
4	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद	406.08	437.40	433.16	843.48	371.27	736.04	
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	508.91	892.42	739.99	1,401.33	917.03	1,849.52	
6	प्रदत्त इकिटी शेयर पूंजी (सम मूल्प ₹ 10/- प्रति)	551.01	551.01	551.01	551.01	551.01	551.01	
7	अन्य इक्रिटी (रिजर्व को छोड़कर पुनर्मूल्यांकन रिजर्व)	92	- 1	12	10	0	11,002.83	
8	आय प्रति शेयर (सम मूल्य र 10/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं) मूल एवं तरल आय प्रति शेयर (र में)	9.24	16.20	13.43	25.43	16.64	33.57	

मूल एवं तरल आय प्रति शेयर (र में)

उपरोक्त अनअंकेक्षित कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई थी और 09 नवम्बर, 2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

2 कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने सेबी (विनियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अनसार 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनअंकेक्षित (स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड) वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है। उपर्युक्त 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है, जो सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर किया गया है। कंपनी के 30 सितम्बर, 20223

को समाप्त तिमाही और छमाही के अनअकेक्षित (स्टेंडअलोन और कंसोलिडेटेड) वित्तीय परिणाम बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) की वेबसाइट पर और कंपनी की वेबसाइट www.apisindia.com पर उपलब्ध हैं।

		समाप्त तिमाहीं		समाप्त	समाप्त वर्ष	
विवरण	30.09.2023 (अनअंकेक्षित)	30.06.2023 (अनअंकेक्षित)	30.09.2022 (अनअंकेक्षित)	30.09.2023 (अनअंकेक्षित)	30.09.2022 (अनअंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेक्षित)
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	7,964.59	7,898.36	9,859.11	15,862.95	16,690.00	33,366.01
कर से पूर्व लाभ	572.93	617.38	585.71	1,190.31	523.86	1,375.64
कर के बाद लाभ	402.09	437.60	433.16	839.69	371.31	798.35
अन्य व्यापक आय	-	-	-			24.18
कुल व्यापक आय	402.09	437.60	433.16	839.69	371.31	822.53

5 पिछली तिमाही और वर्ष के अंत के आंकडे वर्तमान अवधि के वर्गीकरण की पृष्टि के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, पनः समिहत/पनर्गठित किए गए हैं।

कृते एपीस इंडिया लिमिटेड

दिनांक: 09 नवंबर 2023 स्थान : नई दिल्ली

अमित आनंद प्रबंध निदेशक DIN:00951321

बोर्ड के आदेशानुसार

अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड सीआईएन नंबर: L65100DL1984PLC018748 एस-524, पहली मंजिल, विकास मार्ग शकरपुर दिल्ली 110092 वेबसाइट: www.abhinavleasefinltd.in | ई-मेल: abinavleasefinltd@gmail.com

30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए

स्टैंडअलोन अन-ऑडिटेड वित्तीय परिणामों का विवरण

那. 说	विवरण	तिमाडी समाप्ति	तिमाही समाप्ति	यार्विक समाप्ति
	1997-1	30/09/2023 (ਕਾਰ-ਗੋਬਿਟੇਕ)	30/09/2022 (अन-ऑडिटेड)	31/03/2023 (ऑबिਟੇਫ)
1 2	परिचालन से कुल आय असाधारण वस्तुओं और कर से पहले सामान्य से	709.48	1297.14	4,305.80
	शुद्ध लाग / (हानि)।	2.66	12.37	9.80
3	कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि)।	2.66	12.37	9.80
4 5	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाग/(हानि)। अवधि के लिए कुल व्यापक आय (जिसमें लाग/(हानि) और अवधि कें लिए अन्य व्यापक आय शामिल है)	2.66	12.37	9.67
		2.66	12.37	9.67
6	इक्विटी शेयर पूंजी	499.8	499.8	499.8
7	रिजर्व			
8	प्रति शेयर आय			
a	(प्रत्येक का अंकित मूल्य 1/- रु.) बुनियादी	0.005	0.025	0.019
b	तरल	0.005	0.025	0.019

का एक उद्धरण है। 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाड़ी और छमाही के विशीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.abhinavleasefinltd.in पर उपलब्ध है। अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के लिए

दिनांक: 09.11.2023 ममता अग्रवाल

स्थानः नई दिल्ली प्रबंध निदेशक

KALPA COMMERCIAL LIMITED

CIN: L74899DL1985PLC022778 Reg. Office: 1st Floor, 984, Pocket C, IFC Ghazipur, Delhi - 110 096 India Email ID: info@kalpacommercial.in, Website: www.kalpacommercial.in Extracts of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023 (Rs. in lakhs, unless otherwise stated

	DV 46/5/50	Quarte	r Ended	Half Yes	Year Ended	
S. No.	Particulars	30.09.2023 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited
1	Total Income from operations	0.00	655.81	0.88	3160.82	3373.11
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(3.36)	(1464.12)	(6.82)	(1466.12)	(2296.36)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(3.36)	(1464.12)	(6.82)	(1466.12)	(2296.36)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(3.36)	(1464.12)	(6.82)	(1466.12)	(2296.36)
5	Total comprehensive income for the period (comprising profit / loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	(3.36)	(1464.12)	(6.82)	(1466.12)	(2296.36)
6	Paid up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	1025	1025	1025	1025	1025
7	Reserves excluding revaluation reserves as per balance sheet of previous accounting year	- 18				
8	Earnings Per Share (of Rs. 10\- each\) (not annualized, in Rs.) for continuing and discontinued operations (a) Basic: (b) Diluted:	-0.03 -0.03	-14.28 -14.28	-0.07 -0.07	-14.30 -14.30	-22.40 -22.40

The above result has been approved by the Audit Committee and by the Board of Directors of the Company November 08, 2023

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Financial Results for the guarter and half year ended are available on the website of BSE at www.bseindia.com and on Company's website By order of the Board

For Kalpa Commercial Ltd. Mukul Jindal

Wholetime Director

DIN: 07229720

Date: November 08, 2023 Place: Delhi

हस्ता/-

DR. M. INDUSCORP LIMITED Regd. Office: 18B/1, Ground Floor, Dev Nagar, D.B.Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, Tel.: +91-11-28716806 CIN: L01119DL1988PLC023698 Website: www.drminduscorp.com; Email:drmsoy@gmail.com Extract of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September 2023 For Quarter Ended For Half Year Ended Year ende 30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022 31.03.2023 **Particulars** Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Total income from operations (Net) 5.82 12.00 13.19 23.86 40.35 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary 1.14 -2.11 5.96 -0.975.27 7.52 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or 7.52 Extraordinary items) 1.14 -2.11 5.96 -0.975.27 Net Profit((Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or 1.14 -2.11 5.96 -0.975.27 7.52 Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other 1.14 -2.11 -0.977.52 Comprehensive Income (after tax)] *763.02 *763.02 *763.02 *763.02 *763.02 *763.02 Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (534.24)Earnings per share: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * The Share Capital includes amount of Rs. 7 Lacs against shares forfeited. The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 09/11/2023. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results are available on the Company's website (www.drminduscorp.com) and on the website of Stock Exchange i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in). The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed and the related Report does not have any impact on the above 'Results and Notes' for the Quarter ended, 30/09/2023 which needs to be explained The figures of the previous period/year has been regrouped/recast wherever considered necessary, to conform to the current year classifications. By the Order of the Board [PREM PRAKASH] Place: New Delhi Managing Director

P R HOLDINGS LIMITED CIN: L27310DL1983PLC314402 Regd. Office: R-489, GF-C, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060 Tel: 011-42475489, Email: prholding1983@gmail.com, Website: www.prholding.in STATEMENT OF PROFIL & LOSS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30.09.7073 Quarter ended Half Year ended Year Ende Quarter Preceeding Corresponding Half Year Corresponding Previous **Particulars** Half Year ended Quarter Quarter ended Year Ended Ended ended Ended 30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022 31.03.2023 Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited Audited Total Revenue 133.13 5,212.83 (785.21)918.35 668.44 1.260.14 Total Expenses 272.30 291.78 278.05 564.08 560.80 1,177.83 PROFIT BEFORE TAX (1,057.51) 626.57 390.40 (430.94)699.35 4039.30 747.28 Tax Expense 0.00 0.00 Profit /(Loss) for the period 3292.02 (1,057.51) 626.57 390.40 (430.94)699.35 Other Comprehensive Income 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 Earning per Share (0.56)0.33 (0.23)0.37 STATEMENT OF ASSETS & LIABILITIES FOR THE HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER, 2023 AS AT 30.09.2023 31.03.2023 (Un-Audited) (Audited) Assets Total non-current assets 22,325.81 23,271.16 Total current assets 15.801.28 15.249.81 **Total Assets** 38,127.09 38,520.97 (a) Equity Share Capi 18,900.00 18,900.00 (b) Other Equity 18,710.75 19,141.69 37,610.75 38,041.69 Total equity Total current liabilities 516.34 479.28 Total equity and liabilities 38,127.09 38,520.97 NOTES: No investor's complaint was received & No complaint pending at the beginning or end of Quarter / Year.

Results were taken on record by Audit Committee & Board of Directors in meetings held on 09.11.2023 Shares stand Listed at MSEI & CSE.

Previous Year's / Quarterly figures have been regrouped / rearranged, wherever necessary. Paid-up Capital = 18,90,000.00 equity shares of Rs. 10/- = Rs. 1,89,00,000/-

6. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Quarterly & Half-Yearly Financial Results of FY ended 30.09.2023 prepared under IND-AS and filed with the Stock Exchange on 09.11.2023 u/r 33 of SEB(LODR) Regulations, 2015. The full format of the financial results is available on the website of BSE Ltd at www.msei.ii and also on Company's website at www.prholding.in

Place: New Delhi Date: 09.11.2023 Sakshi Gupta WTD & CFO DIN: 09773654 MEMBERS ARE REQUESTED TO UPDATE THEIR PAN, MOBILE NO, EMAIL ID, ADDRESS, DEMAT CLIENT ID. ETC FOR CORRESPONDENCE

केनरा बैक Canara Bank 🥻 सिंडिकेट Syndicate

Date: 09/11/2023

सम्पत्तियों की ई-जीलाभी 27.11.2023 ई एम डी की अंतिम दिनांक और समय 23.11.2023, 05:00 PM

ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण A/c No. 6976296000001 E-Auction Name of Beneficiary: Canara Bank, IFSC Code: CNRB0006976

ई-जीलामी बिक्री सुचना, जीलामी बिक्री सुचना नियम 8(6) के तहत अचल संपत्तियां सुरक्षा हित के (प्रवर्तन नियम 2002 क्षेत्रीय कार्यालयः स्कर्ह बिज टॉवर, द्वितीय तल, चामडी गेट के पास दिल्ली रोड, हापुड् - 245101, मुख्य प्रबंधक, पाविकृत अधिकारी, मोबाईल: 941277417

अधिकत प्राधिकारी, केनरा बैंक।

ई-नीलाभी बिकी सूचना

DIN: 00289179

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सुचना एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(री) तथा जमानती(यीं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका रचनात्मक कब्जा केनर बैंक के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, सम्बद्ध पक्षकारों से बैंक के बकायों की वसूली के लिए उसकी बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर 27.11.2023 को 12:30 बजे अप. तक विक्री की समाप्ति तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित तथा रू. 25,000 राशि की न्यूनतम वृद्धि के साथ) की जावेगी। अवल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण, आरक्षित मूल्य, ईएमडी, देयताएं तथा झात ऋणभार, यदि कोई हो, निम्नलिखित हैं:

	Ho.	कर्जदार का विवरण	सम्पत्तियों का विवरण	बकाया देयता	ईएमडी मूल्य बोली वृद्धि राशि						
		उधारकर्ताः- मै. एम.एच. दैक्सदाईत्स, प्रो. श्री महबूब पुत्र श्री हकीमुददीन, वीर अब्दुल हामिद चौक, मोहल्ला गढ़ी, पिलखुआ, हापुह, 245304. मोबाईलः 7669447353.	नौबदरीः एकं अञ्चल एष्टिनमः जातेर मिलक की अमानित उत्तरः अञ्चल रक्षिणः रिल्लार	लाख इक्यानवे हजार नौ सौ	Rs. 1,95,000 Rs. 25,000						
- 1	_	<u></u>									

बकाया देवताएँ: स्थानीय सरकार/केन्द्र सरकार/प्राधिकरण (जैसे सम्पत्ति कर, जल कर, बिजली के बिल, दीडीएस, स्टाम्प शूल्क आदि) रू.: उपर्युक्त किसी भी सम्पत्ति के लिए बैंक को झात नहीं। ईएमडी 23.11.2023 को 17:00 बजे तक या इससे पूर्व जमा की जानी है। सम्पत्ति का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी शाखा प्रबंधक के साथ पूर्व नियुक्ति के साथ 10 से 5 बजे तक कार्य दिवस में संपत्ति का दौरा किया जा सकता है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com या https://indianbankseauction.com में प्रावधानित लिंक "E-Auction" देखें या निम्नलिखित से सम्पर्क करें: पिलबुआ एसएमई 2, मुख्य प्रबंधक, मो. 9412774668, मेल आईडीः cb18559@canarabank.com, उपर्युक्त शाखा प्रभारियों से किसी भी कार्यदिवस में कार्य घण्टों के दौरान सम्पर्क किया जा सकता है।

बेक्री नोटिस दिनांकः 04.11.2023 स्थानः हापुड् ।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 15 दिवसीय सांविधिक बिक्री सूचन

TENNECO FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED

Regd Off: DLF Prime Towers, 10 Ground Floor, F-79 & 80, Okhla Phase-I, New Delhi-110020 Corp off: 10th Floor, Paras Twin Towers, Tower B, Golf Course Road, Sector 54, Gurugram-122002

Website: www.federalmogulgoetzeinda.net, CIN:L74899DL1954PLC002452, E-mail: investor.grievance@tenneco.com Phone: +91 11 49057597 +91 124 4784530

Statement of standalone and consolidaetd unaudited financial results for the quarter and half year ended 30 September 2023 (Rs. in lacs except per share data)

	l Particulars	Standalone							Consol	dated	25		
SI No.		Quarter ended 30 September 2023 (Unaudited)	Quarter ended 30 June 2023 (Unaudited)	Quarter ended 30 September 2022 (Unaudited)	Year to date 30 September 2023 (Unaudited)	Year to date 30 September 2022 (Unaudited)	Year ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter ended 30 September 2023 (Unaudited)	Quarter ended 30 June 2023 (Unaudited)	Quarter ended 30 September 2022 (Unaudited)	Year to date 30 September 2023 (Unaudited)	Year to date 30 September 2022 (Unaudited)	Year to date 31 March 2023 (Audited)
1.	Total Income from operations	43,571.28	40,514.62	42,225.41	84,085.90	81,859.13	160,854.23	44,211.70	41,090.40	42.935.07	85,302.10	83,110.80	163,413.87
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,794.48	3,740.65	3,485.29	8,535.13	6,008.44	12,896.16	4,670.95	4,076.87	3,538.34	8,747.82	6,393.63	14,104.57
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and /or Extraordinary items)	4,794.48	3,740.65	3,485.29	8,535.13	6,008.44	12,896.16	4,670.95	4,076.87	3,538.34	8,747.82	6,393.63	14,104.57
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,549.94	2,870.56	2,660.93	6,420.50	4,532.50	9,723.17	3,339.02	3,117.84	2,612.00	6,456.86	4,730.24	10,738.26
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	3,549.94	2,870.56	2,660.93	6,420.50	4,532.50	9,596.85	3,339.02	3,117.84	2,612.00	6,456.86	4,730.24	10,611.01
6.	Equity Share Capital	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic (In Rs):	6.38	5.16	4.78	11.54	8.15	17.48	5.78	5.38	4.45	11.16	8.03	18.13
	Diluted (In Rs) :	6.38	5.16	4.78	11.54	8.15	17.48	5.78	5.38	4.45	11.16	8.03	18.13

The above result is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the these Financial Results are available on the website of the company (http://www.federalmogulgoetzeindia.net/web/index.html).

The standalone and consolidated unaudited financial results of Federal-Mogul Goetze India Limited (the "Company") and its subsidiary (collectively, the "Group") for the quarter and half year ended 30 September 2023, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 09 November 2023. The statutory auditors of the Company have expressed an unmodified review conclusion on the standalone unaudited financial results for the quarter and half year ended 30 September 2023.

The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) prescribed under section 133 of the companies Act. 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

For and on behalf of Board of Directors

(Vinod Kumar Hans)

Managing Director DIN- 03328309







Date: 09 November 2023

Place: Gurugram





